

भारत का सजापत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 308] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 25, 1979/श्रावण 3, 1901
No. 308] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 25, 1979/SRAVANA 3, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate page is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहायता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 1979

निर्यात व्यापार नियंत्रण

का० आ० 426(अ)संख्या/-ई (सी) प्रो. 1977/ए.एन. (126):--आयात-निर्यात (नियंत्रण)
अधिनियम, 1947 (1947 का 13) के खण्ड-3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1977 में आगे संशोधन करने के लिए
निम्नलिखित आदेश की रचना करती है, अर्थात्:--

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) 39वां संशोधन आदेश, 1979 की संज्ञा दी जाए।

2. निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1977 में, खूला सामान्य लाइसेंस-4 में, कालम-2 में, क्रम संख्या-23 (4) के सामने प्रदर्शित वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी :—

“खिड़की, दरवाजा और रोशनदान के सेक्शनों को छोड़ कर रोल्ड स्ट्रक्चरल सेक्शन।”

[मिसिल संख्या-5 (6)/79-ई-2]

सी० वेंकटरमन, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & CO-OPERATION

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 25th July, 1979

EXPORT TRADE CONTROL

S.O. 426(E)/No. E(C)O, 1977/AM(126).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947, (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order 1977, namely :—

1. This Order may be called the Exports (Control) Thirty-ninth Amendment Order, 1979.
2. In the Exports (Control) Order 1977, in OGL 4, in col. 2, the existing entry appearing against S. No. 23(4) shall be substituted by the following :—

“Rolled structural sections excluding window, door and ventilator sections”

[File No. 5(6)-79-E/III]

C. VENKATARAMAN,

Chief Controller of Imports & Exports